



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, अक्टूबर 12—अक्टूबर 18, 2014, शनिवार/आश्विन 20—आश्विन 26, 1936  
No. 21] NEW DELHI, OCTOBER 12—OCTOBER 18, 2014, SATURDAY/ASVINA 20—ASVINA 26, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2014

**का.नि.आ. 63.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर, भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2003 को जहां तक उनका संबंध भंडार अधीक्षक, और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर में अधीक्षक (भंडार) तथा भंडारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर कोर, अधीक्षक (भंडार) तथा भंडारी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अधीक्षक (भंडार)	107* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अनौद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं			सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		नहीं

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में ऐसे भंडारी जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है ।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले, या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)	(13)
<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</b></p> <p>(1) ब्रिगेडियर —अध्यक्ष</p> <p>(2) कर्नल रिकार्ड, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर —सदस्य</p> <p>(3) महानिदेशक इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर के प्रतिनिधि जो निदेशक इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर (सिविल) या संयुक्त निदेशक, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर (सिविल) की नियुक्ति धारण करता हो । —सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी	175* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अनौद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1 :</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों

(6)

की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।

**टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवी कक्षा पास	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(10)	(11)	
आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<b>आमेलन :</b> रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में नियमित आधार पर सदृश या उच्चतर पद धारण किए हुए ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विहित अर्हताएं हैं।	
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं	
(1) ब्रिगेडियर	—अध्यक्ष	
(2) कर्नल रिकार्ड, इलैक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर	—सदस्य	

(12)

(3) महानिदेशक इलैक्ट्रानिक्स और यांत्रिक —सदस्य

इंजीनियर के प्रतिनिधि जो निदेशक,  
इलैक्ट्रानिक्स और यांत्रिक इंजीनियर  
(सिविल) या संयुक्त निदेशक,  
इलैक्ट्रानिक्स और यांत्रिक इंजीनियर  
(सिविल) की नियुक्ति धारण करता हो।

[ फा. सं. पीसी/89228/आर आर/स्टोर स्टाफ/ई.एम.ई. सिव.(सी-2)/296/र.(नि.)/2014 ]

दलपत सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 7th October, 2014

**S.R.O. 63.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Corps of Electrical and Mechanical Engineering Store Superintendent, Senior Storekeeper and, Storekeeper Group 'C' posts Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the posts of Store Superintendent and Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Superintendent (Store) and Store Keeper in the Corps of Electronics and Mechanical Engineers in the Ministry of Defence, namely: -

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Corps of Electronics and Mechanical Engineers, Superintendent (Store) and Store Keeper Group 'C' posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- Servicemen and

other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Superintendent (Store)	107* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Industrial, Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)

By promotion

#### Promotion

Store Keeper in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade after appointment thereto.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note : 2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been

(11)

extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion ) consisting of :—**

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

- (1) Brigadier —Chairman
- (2) Colonel Records, Electronics and Mechanical Engineering —Member
- (3) Director General of EME representative holding the appointment of Director Electronics and Mechanical Engineering (Civil) or Joint Director Electronics and Mechanical Engineering (Civil) —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Storekeeper	175* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Industrial, Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus grade pay of Rs. 1900	Non-selection	Between 18 to 25 years.  <b>Note 1:</b> Relaxable for Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by Central Government from time to time.  <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
12th class pass from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years for direct recruits.
(10)	(11)	
By absorption failing which by direct recruitment.	<b>Absorption :</b> Persons holding analogous posts or higher posts on regular basis in the lower formations of Defence Services who possess same qualification as prescribed for direct recruitment in column (7).	
(12)	(13)	
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :—</b> (1) Brigadier —Chairman (2) Colonel Records, Electronics and Mechanical Engineering —Member (3) Director General of EME representative holding the appointment of Director Electronics and Mechanical Engineering (Civil) or Joint Director Electronics and Mechanical Engineering (Civil) —Member		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. PC/89228/RR/Store Staff/EME Civ (C-2)/296/D(Apptts)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.